

THE
HARIDAS SANSKRIT SERIES

55.



THE
DĀNĀDĪPIKĀ

With the-

BHĀVABODHINI HINDI COMMENTARY

By

Pandit S'ri Sudāma Mis'ra



Edited by the Author.

PUBLISHED BY

JAYA KRISHNA DĀS HARIDĀS GUPTA

The Chowkhamba Sanskrit Series Office.

Benares City

1936.

(*All Rights Reserved by the Publisher*)

PUBLISHED BY

JAYA KRISHNA DAS HARIDAS GUPTA

The Chowkhamba Sanskrit Series Office.

B E N A R E S.

Printed at the Vidya Vilas Press, Benares,

1936.

* श्रीः *

→* हरिदास-संस्कृत-ग्रन्थमाला *←

५५



(द्वादशमासान्नादिदानप्रयोगात्मिका)

भावबोधिनी भाषासहिता

→ॐ श्रीदानदीपिका ॐ←

श्रीमद्राजकुमारवंशावतंसराजर्षिश्रीशशिधरसिंहदेववर्ममहोदयस्याज्ञ-

या साहाय्येन च काशीस्थश्रीहाराणचन्द्रशास्त्रिचरणाना-

मन्तेवासिना रायबरेलीमण्डलान्तर्गतटिकारीराज-

धानीस्थश्रीचन्द्रभानुपाठशालाप्रधानाध्याप-

केनोक्तराजभवनेऽनुष्ठेयदेवपितृकार्येषु

प्राप्ताचार्य्यकेण

पण्डितश्रीसुदामामिश्र-

शास्त्रिणा निर्मितता संशोधिता च ।

प्रकाशकः—

जयकृष्णदास हरिदास गुप्तः—

चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस,
बनारस सिटी ।

सं० १९९३ वै.

[सर्वेऽधिकाराः प्रकाशकेन स्वायत्तीकृताः ।]



प्राप्तिस्थानम्—

चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय

बनारस सिटी ।



समर्पणम्

वेदध्वानविधूयमानदुरितः-
श्रद्धाविशुद्धाध्वरो,
न्यायव्याकृतिसांख्ययोगकविता-
वेदान्तसिद्धान्तवित् ।
धैर्यदीदार्यगभीरतामृदुलताऽऽ-
चारादनानागुणो,
गौरीशङ्करशर्मशुक्लविबुधो-
विभ्राजते भारते ॥

तं गुरुं हृदये ध्यात्वाऽनिशं शम्भुस्वरूपिणम् ।
समर्पये शशिधरस्तन्मुदे दीपिकामिमाम् ॥



काशीस्थसर्वमान्यविदुषां सम्मतयः । *

श्रीश्रीगौरकृष्णः शरणम् ।

अधिकाशि

श्रीमन्माध्वसंप्रदायाचार्य्यदार्शनिकसार्वभौम-
साहित्यदर्शनाद्याचार्य्यन्यायरत्नतर्करत्न-

गोस्वामिदामोदरशास्त्री

“विहार”जनपदान्तर्गत“मुजप्फरपुर”प्रान्तीयलालगञ्जवास्तव्येन वाराणसेयराजकीयविद्याऽऽलयतोऽवाप्त“व्याकरणशास्त्रि”पदवीकेन पण्डितश्री-सुदाममिश्रेण मदीयच्छात्र“महामहोपाध्यायकविचक्रवर्तिसुकुलश्रीदेवीप्रसाद-शर्मतो धर्मशास्त्रादिकमधीत्य,

स्वालङ्कार्माणतया “रायबरेली”पत्तनस्थायां “टिकारी”राजस्याभिरूपगृ-ह्यरूपस्यानेकगुणशेवधेः श्रीशशिधरसिंहदेववर्मणः पाठशालायामध्यापकेषु लब्धप्राधान्येन स्मृतिशास्त्रपरिशीलनपटिमन्यधिगतिनोक्तराजभवनेऽनुष्ठेय-धर्मसंपृक्त्यावत्कार्येषु प्राप्त्याचार्य्यकेण निर्मितं “दानदीपिका”निबन्धमवेक्ष्य; प्रमोमुद्यमानमानसः संभावयँश्च सत्स्वपि दानसंबद्धविवेच्यविषयकानेकपु-स्तकेषु मासभेदात् प्रधानत्वेन दातव्यान्नभेदव्यवस्थापनायामस्यैवेदंप्रथ-मतां, कामयमानश्च जगदीश्वरानुकम्पयेतो लोकानां फलेप्रहितां, निर्मातारं चेद्गुणकृतिनिबन्धनसुकृतौपयिकं सर्वपथीनं क्षेममनुभवैश्वरमेष जीवतादि-त्याशिषाऽभिनन्दयति । इति शम् ।

युक्त देशान्तःपातिरायबरेलीमण्डलान्तर्गतटिकारीभूमिपतिश्रीशशिधर-सिंहदेवमहोदयस्याज्ञया साहाय्येन च तदाश्रितपण्डितेन मदीयान्तेवासिना

* ग्रन्थाकारबर्द्धनेन सर्वेषां विदुषां सम्मतिं प्रकाशयितुमक्षमः ।
केवलं तेषां हस्ताक्षराणि प्रकाशयन्ते, इति पाठकमहानुभावैर्बौद्धव्यम् ।

श्रीसुदामामिश्रेण निर्मिता दानदीपिका मया समवलोकिता । समीचीनेयं दीपिका
सुप्रचारिता चेद् भवेत्तदाऽऽस्तिकजनानां परमोपकाराय परमानन्दाय च
भविष्यतीति मन्यते—

काशीस्थो—

श्रीहाराणचन्द्रभट्टाचार्यः ।

(वाराणसेयराजकीयसंस्कृतमहावि-
द्यालयाध्यापकमहोदयः ।)

श्रीविद्याधरशर्ममिश्रः—(“वेदाचार्यः” काशीस्थहिन्दूविश्ववि-
द्यालयधर्मविभागप्रिन्सिपलमहोदयः ।)

श्रीगोपालशास्त्री नेने—(काशीस्थराजकीयसंस्कृतमहाविद्यालया-
ध्यापकमहोदयः ।)

श्रीमदनमोहनशास्त्री—(काशीस्थमारवाडिसंस्कृतमहाविद्यालया-
ध्यक्षमहोदयः ।)

श्रीनारायणशास्त्री खिस्ते—(“साहित्याचार्यः” “साहित्यवा-
रिधिः” काशीस्थराजकीयसरस्वतीभवनोपाध्यक्षमहोदयः ।)

श्रीगणेशदीक्षितजाऊजिभट्टः—(काशीस्थसाङ्गवेदविद्यालययजुर्वे-
दाध्यापकमहोदयः ।)

पं० श्रीत्रिभुवननाथमिश्रः—(“व्याकरणसाहित्यमीमांसाऽऽचा-
र्यः” काशीस्थगोयनकामहाविद्यालयाध्यापकमहोदयः ।)

पं० श्रीशिवबालकशुक्लः—(काशीस्थजोखीराममटरूमलगोयनका-
महाविद्यालयाध्यापकमहोदयः ।)

श्रुतिस्मृतिपुराणादिधर्मशास्त्रप्रमाणालङ्कृतस्य दानदीपिकाग्रन्थस्य प्रशं-
सनीया सरणिः । अनेन धान्यदानादिषु सर्वेषामुपकारो भविष्यतीति धर्म-
परायणैः संग्राह्यः ।

शु० गौरीशंकरशास्त्री—

राजगुरु टेकारीराज्य ।

प्रस्तावना ।

सन्तु किलानेकधा सप्रणामं धन्यवादाः परमात्मपरब्रह्मणे श्रीमन्नारायणाय, येन दयार्द्रचेतसा संसारणवनिमग्नानां कामक्रो-
 धाद्यतिक्रूरमकरादिभिर्भूयो भूयोऽभ्यवह्नियमाणान्तःकरणाङ्गानां
 मोहादिबृहत्तरतरङ्गपरिचालनपरिक्लिश्यमानमानवानामुपकृतिकृते
 स्वाज्ञारूपाश्चत्वारो वेदाः प्रादुर्भावयामासिरे, यत एव च पुराणा-
 दीनामप्याविर्भाव इति । ततश्च परशताः सन्तु धन्यवादा महर्षि-
 प्रवराय परमदयोदयाय श्रीवादरायणाय, येन महात्मना कालक-
 लोपनतबुद्धिहासालस्यादिभिर्वेदार्थज्ञानतद्बोधितकर्मनुष्ठानासम-
 र्थानामल्पीयःप्रयासैर्भवाब्धिमुत्तितीर्षूणां श्रोवसीयाय भगवदव-
 तारादिसच्चरितसद्धर्मप्रपूरितानि सत्कथागुम्फितान्यष्टादशपुराणानि
 महाभारतादीतिहासा अन्येऽपि स्मृतिग्रन्थाः प्राणायिषत । तत्र च
 दानधर्म-राजधर्म-भागवतधर्मा-द्यनेकधर्मव्याख्यानावसरे सत्य-
 शौच-दया-दाना-त्मकचतुष्पदो धर्मो व्याख्यातः, स एव दरीध-
 र्ति धरित्रीम् ।

एतर्हि कलिजाधर्मवशात्पदत्रयभङ्गे दानमेवावशिष्टम्, 'दानमेकं
 कलौ युगे' इत्युक्तेः । दोषनिधौ कलौ "कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति
 नेतराणि कृतानि यत्" अर्थात् कुशलानि पुण्यानि आशु सङ्कल्प-
 मात्रेण फलन्ति, इतराणि पापानि आशु न सिद्ध्यन्ति, यतस्तानि
 कृतान्येव सिद्ध्यन्ति न तु सङ्कल्पितमात्राणीति पाराशर्यपादा
 आहुः श्रीभागवते । अतो येन केन प्रकारेण दत्तं दानं कल्याणकृद्
 भवति श्रीमद्भगवद्गीतायाम्—“यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं
 कायंमेव तत् । नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ॥ कर्म-
 णैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । क्षिप्रं हि मानुषे लोके
 सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥” इत्यादि श्रीभगवदुक्तेश्चानुराश्रम्ये एवं

चातुर्वर्ण्येऽपि यज्ञदानतपःकर्मणो नोपेक्षणीयताऽस्ति, 'पावनानि मनीषिणाम्' इत्युक्त्वा सर्वेषां पावनत्वात् । किन्तु इयानेव भेदः— ब्रह्मचारिगृहिभ्यां तु लोकस्य स्वस्य चोपकारार्थं सकामत्वेन तथे- तरैर्लोकसङ्ग्रहार्थं निष्कामत्वेन एतान्याचरितव्यानि । एतत्कर्म- त्रितयमध्यवर्ति दानपदं देहलीदीपकन्यायेन उभयोर्यज्ञतपसोः फल- दायकमपीति सोसूच्यते । तथाऽत्र कलौ विशेषतयाऽन्यमहर्षिम- तानुसारेण दानमेव सर्वश्रेयस्करम् । यज्ञतपसोर्विषये मतभेदेऽपि नात्र मतभेदः, यवनानां गुरुण्डानां पारसीकानामार्याणामनार्याणां केषामपीति निर्विवादम् ।

परस्वत्वोत्पत्त्यन्तो द्रव्यत्यागो दानपदार्थः । बहुविधाभिर्दान- मुक्तम्, तत्रान्नदानमाहात्म्यं सर्वदानमतिशाशय्यते । यथोक्तं श्रीकृ- ष्णचन्द्रेणैव युधिष्ठिरं प्रति भविष्योत्तरे—“अन्नमेव परं दानं सत्यवाक्यं परं पदम् । बुद्धिश्चार्थात्परो लाभः सन्तोषः परमं सुख- म् ॥” इत्यादि बहुशो वर्णनादन्नदानस्यैव माहात्म्यप्राचुर्यम् । प्रत्य- क्षेऽपि यथा मुखे निक्षिप्तं रत्नहेमादि प्राणधारणं न करोति, किन्तु जग्धं सदन्नमेव लोकान्पाति । गीतायाम्—अन्नाद् भवन्ति भूतानोति प्रतिपादनान्निखिलदानमूर्द्धन्यभागेऽन्नदानमेव वरीवर्ति, चरीकर्ति च सकलकामनासिद्धिमिति समन्ततः प्रसिद्धमेव ।

किमनल्पजल्पनेन, प्रकृतमनुसरामः—मेषमकरसङ्क्रान्त्योस्त- दानुकूल्येन वैशाखमाघमासयोर्यवोत्थसक्तुकुसरान्नदानं यथोपल- भ्यते, तथाऽवशिष्टासु दशासु संक्रान्तिषु मासु च प्रतिमासं पृथ- क्पृथक्कानि कान्यन्नानि देयानीति निर्णयवचनं निर्णयसिन्धुधर्म- सिन्धुमदनपारिजातहेमाद्र्यादिनिबन्धग्रन्थेषु नासाद्यते, शिष्टोपदि- ष्टवचनानि पुण्यकालात्मकानि तु संप्राप्यन्ते । परं च तत्तत्पुण्यका- लौपयिकान्नदानं सिद्धान्तितं नाधिगम्यते । अतः समस्तवैदिकधर्मा- वलम्बिजनेहितप्रपूरणाय तदूनतादोषनिवारणाय एकत्रैव मासपर- कविहितान्नदानोचितस्मार्तवचनलाभाय च शास्त्रविचारचारुचरित- सौशीलयौदार्याद्यनेकसङ्गुणार्जितयशोधवलीकृतदिङ्मण्डलज्ञात्र-

धर्मरक्षणैकदक्षणाभवधप्रान्तगतरायबरेलीमण्डलान्तर्वर्त्तिकारी-
 राज्याधिपश्रीमत्कान्हकुलतिलकसंस्कृतप्राकृताङ्ग्लयवनभाषामर्मज्ञ-
 कवित्वशक्तिसम्पन्नश्रौतस्मार्तकर्मामनुष्ठानपरायणाध्यात्मिकतत्त्वप-
 रिरशीलनपरविद्वत्प्रियश्रीशशिधरसिंहबहादुरमहोदयानां द्रव्यप्रदा-
 नादिविविधसत्कारकरणैतद्ग्रन्थप्रकाशनप्रोत्साहनाप्तवचनगवेषणा-
 रूपसाहाय्येन काशीस्थराजकीयप्रधानविद्यालयीयाशेषशास्त्राध्यापक-
 भट्टाचार्यश्रीहाराणचन्द्रशास्त्रिणामन्तेवासिविहारप्रान्तान्तर्गतमुजफ्फ-
 रपुरमण्डलस्थलालगंजवास्तव्यटिकारीराजधानीस्थश्रीचन्द्रभानुपा-
 ठशालामुख्याध्यापकस्मार्तक्रियाकुशलश्रीसुदामामिश्रशास्त्रिभिर्निर्मिता
 वेदपुराणादिसम्मताऽसौ दानदीपिका नूनं विज्ञजनमानसानि आह्ला-
 दयिष्यतीति भक्तेष्टपूरणपटुं श्रीहरिं मूर्ध्ना प्रणमन् विरमति—

श्रीमतां विपश्चितां वशंवदः,

दामोदरशुक्लः,

टेकारीराज्यान्तःपात्यठेहाग्रामवास्तव्यः ।

भूमिका ।

“दानमेकं कलौ युगे” महर्षि पराशरके इस वचनसे कलियुगमें वर्णाश्रमधर्मानुयायी मनुष्यमात्रके लिये दान मुख्य कहा गया है। वह दान बहुत प्रकार का है, पर उनमें अन्नदान सर्वोपरि है। स्कन्दपुराणमें व्यास जी ने कहा है—“अन्नं प्रजापतिः साक्षादन्नं विष्णुः शिवः स्वयम् । तस्मादन्नसमं दानं न भूतं न भविष्यति ॥” अर्थात् अन्न साक्षात् ब्रह्मा-विष्णु-शिव-रूप है, इसलिये अन्नदानके समान दूसरा दान न हुआ और न होगा। इसीतरह “अन्नं वै प्राणाः”—“अन्नदानादसूक्ष्मिष्क्रीणाति” अर्थात् अन्न प्राण ही है, जो अन्नदान करता है मानो वह प्राणदान ही करता है। इत्यादि श्रुति स्मृति पुराणादि के परिशीलन से अन्नदान का महत्व, सब दानों से अधिक विदित होता है। यह अन्नदान ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक को दिया जा सकता है। हमलोगों के सौभाग्य से इस पवित्र भारतवर्ष में बहुत प्रकार के अन्न उत्पन्न होते हैं।

किन्तु उनमें जब कि सत्तू और खिचड़ी, ये दो ही अन्न—मेष मकर की संक्रान्ति तदनुसार वैशाख माघ महीने में—शास्त्रतः प्रचलित है। अवशिष्ट दश महीने में शास्त्रानुसार किस किस अन्न का दान करना चाहिये, ऐसी जिज्ञासा अन्नदानके महत्व जानने वाले प्रत्येक पुरुषों के हृदय में हो सकती है। प्राचीन निबन्ध-ग्रन्थों में मेष मकर की तरह सभी मासमें, भिन्न भिन्न अन्नके दानका वचन उपलब्ध नहीं होता। अतः श्रुति स्मृति पुराण आदि धर्मग्रन्थों की एकवाक्यता और काशीस्थ सर्वमान्य विद्वानों की अमूल्य सम्मति से यह “दानदीपिका” नाम का ग्रन्थरत्न आप विज्ञजनों के सम्मुख उपस्थित किया जा रहा है।

इसमें बारहो महीने में बारह प्रकार के अन्न के दान का निर्देश है। प्रमाणापेक्षी पुरुषों के संतोषके लिये प्रत्येक मास में मूलवचन, दानका संकल्प-

वाक्य, दानमन्त्र और सभी मासके दानोपयोगी संक्षिप्त दानविधि वैशाख के आरंभ में लिख दी गई है। इसमें अन्नदानके अतिरिक्त-औषधदान, पुस्तकदान और गोपरिचर्या आदि उपयुक्त विषय भी दिये गये हैं। सर्व साधारणके उपयोगके लिये टिप्पणी सहित मूलग्रन्थ की सरल भाषाटीका कर देना उचित समझा है। टिप्पणी का भाव भाषाटीकामें [] ऐसे कोष्ठ के भीतर है। सम्भव है टीका लिखने में आर्ष वचनोंका जहाँ तहाँ भावापहरण हुआ हो, इस महाअपराध पर सहृदय विज्ञान क्षमा प्रदान करेंगे।

अन्तमें—टेकाराराज्याधीश श्रीमान् राजकुमारवंशावतंस परमोदार राजर्षि श्रीशशिधर सिंह देव महोदयको शतशः धन्यवाद है, जिनके हृदय में “श्री” की महती अनुकंपासे इस विषयकी न्यूनताकी सर्वप्रथम स्मृति हुई और जिन्होंने मुझे अनेक प्रकारकी सहायतासे उत्साहित किया। मैं ‘गुरुवर्यो’ एवं विद्वानोंके चरणसरोरुह में नतमस्तक हो रहा हूँ, जिन्होंने अपनी अमूल्य सम्मतिसे धार्मिक जनताके समक्ष इस ग्रन्थरत्न को रखने का साहस प्रदान किया है। “विद्याविलास प्रेस” के अधिपति श्रीमान् बाबू जयकृष्णदासजी, ब्रजजीवनदासजी और सर्वप्रिय कृष्णदासजी को सधन्यवाद शुभाशीर्वाद देता हूँ, जिन्होंने अपने अपने अधिकृत कार्योंमें आलस्य त्याग कर शीघ्र ही इस ग्रन्थ का प्रकाशन करके सदृष्टस्थों का परमोपकार किया है। आशा है धार्मिक जनता इसे आदर की दृष्टि से देखेगी।

दोष-दर्शकों के प्रति

निवेदन है कि] शुद्धिपत्रिका देने पर भी भ्रम या छपते समय मात्रा आदि के दृष्ट जाने से जो अशुद्धियां रह गई हों, उसे अपनाते हुये इस परिश्रमको सफल करेंगे। इति शम्।

कृपाभाजन—

श्रीसुदामामिश्र ।

श्रीदानदीपिकास्थसंक्षिप्तविषयानुक्रमः ।

विषयाः	पृ०	पं०	विषयाः	पृ०	पं०
ग्रन्थकर्तृमङ्गला-			ब्राह्मणलक्षणम्	२७	१
चरणम्	१	५	पात्रलक्षणम्	२७	७
दानमाहात्म्यकथनम्	१	१३	ब्राह्मणब्रुवलक्षणम्	२७	१०
सर्वेषु दानेषु अन्नोदका-			अब्राह्मणब्राह्मणाक्रिय-		
दिदानस्य वैशिष्ट्यकथनम्	३	५	थोर्लक्षणम्	२८	१
दानानां षडधिष्ठानानि	११	३	दुर्ब्राह्मणलक्षणम्	२८	६
तत्र धर्मदानलक्षणम्	११	७	वृषलीलक्षणम्	२८	१०
दानस्वरूपवर्णनम्	१२	३	श्रोत्रियलक्षणम्	२९	१
दानानां षड् विपाकाः	१४	३	आचार्यादीनां लक्षणम्	२९	३
तत्र तेषां व्याख्यानम्	१४	७	आत्मविल्लक्षणम्	३०	४
दानानां षडङ्गानि	१५	७	श्रद्धाविवेचनम्	३१	१
तत्र दातृविवेचनम्	१९	१	देयवस्तुविवेचनम्	३२	४
प्रसङ्गाद्विद्विषय्यां शूद्र-			देशविवेचनम्	३६	१
कर्मनिर्देशः	१९	१७	कालविवेचनम्	३७	४
अस्यापद्धर्मः	१९	१९	दानविधौ दातृकृत्यम्	४०	९
वैश्यकर्मणि	१९	२१	दानविधौ प्रतिग्रहीतृ-		
अस्यापद्धर्माः	१९	२३	कृत्यम्	४५	७
क्षत्रियकर्म	२०	१३	धान्यादिमानम्	४६	५
अस्यापद्धर्मः	२०	१६	दक्षिणाप्रमाणम्	४७	६
ब्राह्मणकर्मणि	२०	२२	द्वादशमासान्नदानाव-		
अस्यापद्धर्माः	२०	२४	तरणम्	४८	६

विषयाः	पृ०	पं०
मेघे वैशाखे यवो- त्थसक्तुदानं जल- दानं च	५२	७
वैशाखमासप्रसङ्गेन सक- लमासोपयोगी संक्षिप्त- दानविधिः	५३	२
वैशाख्यां व्यजनदानम्	५५	१
एतन्मासदानोपयोगीनि मूलवचनानि	५५	९
मेघे वैशाखे तीर्थम्	५७	४
ज्येष्ठे चीनकदानं वृक्षाय जलदानं च	५७	७
ज्येष्ठ्यामुपानहानम्	५९	२
एतन्मासदानोपयोगीनि मूलवचनानि	५९	१०
वृषे ज्येष्ठे तीर्थम्	६०	९
मिथुने आषाढे मसू- रदानमामलकफ- लदानं च	६१	३
आषाढ्यां सकपूर्वचन्द- नदानं पुस्तकदानं च	६२	२
एतन्मासदानोपयोगीनि मूलवचनानि	६३	६
मिथुने आषाढे तीर्थम्	६५	४
कर्के श्रावणे प्रियङ्गु- दानं शाकदानं च	६५	७

विषयाः	पृ०	पं०
श्रावण्यां पान्थपरिवर्था यज्ञोपवीतदानं च	६६	११
एतन्मासदानोपयोगीनि मूलवचनानि	६७	७
कर्के श्रावणे तीर्थम्	७१	५
सिंहे भाद्रे मिष्टपाय- सदानं मधुदानं च	७१	८
प्रौष्ठपद्यां छत्रदानम्	७३	१
एतन्मासदानोपयोगीनि मूलवचनानि	७३	८
सिंहे भाद्रे तीर्थम्	७४	१
कन्यायामाश्विने तिलदानं घृतदानं च	७४	४
आश्विन्यामौषधदानम्	७५	१
एतन्मासदानोपयोगीनि मूलवचनानि	७५	१२
कन्यायामाश्विने तीर्थम्	७७	५
तुलायां कार्तिके चणकदानं गो- त्रासदानं गोपरिचर्या च	७७	८
दीपावल्यां कार्तिक्यां च दीपदानम्	७८	१५
एतन्मासदानोपयोगीनि मूलवचनानि	७९	११
तुलायां कार्तिके तीर्थम्	८२	५
वृश्चिके मार्गशीर्षे माषदा- नं लवणदानं च	८२	७

विषयाः	पृ०	पं०	विषयाः	पृ०	प०
मार्गशीर्ष्यां कार्पासिक- वस्त्रदानम्	८३	८	फाल्गुन्यामासनदानं		
पुतन्मासदानोपयोगीनि			शयनदानं वा	९४	१
मूलवचनानि	८४	१	पुतन्मासदानोपयोगीनि		
वृश्चिके मार्गशीर्षे तीर्थम्	८५	१	मूलवचनानि	९४	१२
घनुषि पौषे नीवारदानं			कुम्भे फाल्गुने तीर्थम्	९५	९
गुडदानं च	८५	५	मीने चैत्रे गोधूमदानमा-		
पौष्यां कम्बलदान-			न्नफलदानं च	९६	८
मूर्णवस्त्रदानं वा	८६	८	चैत्र्यां जलपात्रदानं		
पुतन्मासदानोपयोगीनि			भाण्डदानं वा	९७	९
मूलवचनानि	८७	१	पुतन्मासदानोपयोगीनि		
घनुषि पौषे तीर्थम्	८८	१	मूलवचनानि	९८	७
मकरे माघे सोपस्करकृसर-			मीने चैत्रे तीर्थम्	१००	१
दानं ताम्बूलदानं च	८८	९	पुरुषोत्तमे मास्यपूप-		
दर्शं माघ्यां वाऽग्नौन्धन-			दानम्	१००	१
दानम्	९०	४	पुतन्मासदानोपयोगीनि		
पुतन्मासदानोपयोगीनि			मूलवचनानि	१०१	१
मूलवचनानि	९०	१२	दानात्मकव्रतानि	१०२	४
मकरे माघे तीर्थानि	९२	६	अपुत्रतादोषप्रशमनो-		
कुम्भे फाल्गुने व्रीहिदानं			पायः	१०५	२
गोभ्यो जलवृणदानं च	९३	५	उपसंहारः	१०६	३
			ग्रन्थसमाप्तिः	१०७	४

धान्यादिदातृभ्यः शुभाऽऽशासनम् ।

राज्ञे शुभाशीर्वचनम् ।

दानदीपिकायाः शुद्धिपत्रिका ।

	शुद्धिः	पृ०	पं०
अशुद्धिः	शुद्धिः		
सन्यासियों	सन्यासियों	२	१८
दशः	देशः	७	८
यदाश्वर	यदीश्वर	१३	५
यथोक्त	यथोक्त	१४	१२
सर्वलोकेषु	सर्वलोकेषु	१६	८
(३) क्षत्रिये	(१) क्षत्रिये	२०	१
”	”	२०	१३
(४) ब्राह्मणे	(२) ब्राह्मणे	२०	१
”	”	२०	२२
फ(५)लम्	फ(१)लम्	२२	९
”		२२	२१
ब्रह्मबीज	ब्रह्मबीज	२८	२
द्वादशा	द्वादशी	३५	१३
निष् योजनम्	निष्प्रयोजनम्	४२	१०
भविष्य०	(ग)भविष्य०	४६	५
धान्यमानम्	धान्यादिमानम्	४६	५
धान्य का	धान्यादि का	४६	१३
यत्त	यत्तद्	४८	१३
स्त्वभि तं	स्त्वभिमतं	५४	१३
क्षाण	क्षीण	७०	९
सिंह	सिंह	७४	१७
शुल्काष्टमी	शुक्लाष्टमी	८०	९

* श्रीः *
॥ श्रीशः शरणम् ॥

अथ

—❁ श्रीदानदीपिका ❁—

जयति मञ्जुलमङ्गलकारिणी,
भगवती भवभीतिनिवारिणी ।
महिषमुख्यमहासुरमारिणी,
विदितविन्ध्यगिरोन्द्रविहारिणी ॥ १ ॥
नान्नदानात्परं दानमिति शास्त्रनिदर्शिका ।
दर्व्याऽन्नदाननिपुणा साऽन्नपूर्णा प्रसीदतु ॥ २ ॥
किं किं धान्यं प्रयच्छेम मास्सु चैत्रादिषु क्रमात् ।
एतन्निर्णयसम्बद्धां कुरुते दानदीपिकाम् ॥ ३ ॥
तत्रादौ दानमाहात्म्यम् ।

(क) ऋग्वेदे—

उच्चादिवि दक्षिणावन्तो अस्थुः ।

मंजुल मङ्गल मूल मुनि मानित महित महान ।
महिषमहिनी मातु पद बन्दौ मुद मन मान ॥

दान माहात्म्य ।

(क) ऋग्वेद-दान देने वाले स्वर्ग में निवास करते हैं ।

(ख) सामवेदोपनिषदि—

दानेन सर्वान्कामानवाप्नोति ।

(ग) शतपथश्रुतौ—

दानेन भोगी भवति मेधावी वृद्धसेवया ।

अहिंसया च दीर्घायुरिति प्राहुर्मनीषिणः ॥

(घ) यमः—

यतीनां तु शमो धर्मस्त्वनाहारो वनौकसाम् ।

दानमेव गृहस्थानां शुश्रूषा ब्रह्मचारिणाम् ॥

(ङ) मात्स्ये—

दानमेव परो धर्मो दानमेव परं तपः ।

न हि दानात्परतरमिह लोके परत्र च ॥

(च) अगस्त्यः—

गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः ।

अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही ॥

(ख) सामवेदोपनिषद्—दान से सब मनोरथ पूर्ण होता है । (ग) शतपथश्रुति—दान से सुखी, वृद्धों की सेवा से मेधावी और अहिंसा से आयुष्मान् होता है—ऐसा महर्षि लोग कहते हैं । (घ) यम-सन्यासियों की शान्ति, वानप्रस्थों का अनाहार अर्थात् उपवास, गृहस्थों का दान और ब्रह्मचारियों की गुरु-सेवा ही परमधर्म है । (ङ) मात्स्यपुराण—दान ही परम धर्म और परम तप है, इस लोक और पर लोक में दान से बढ़कर दूसरा कार्य नहीं है । (च) अगस्त्य—गाय, ब्राह्मण, वेद, सती, सत्यवादी, निर्लोभी और दानी

(छ) पाराशरः—

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ।

द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे ॥

इति दानमाहात्म्यम् ॥

अथ सर्वेषु दानेषु अन्नोदकादिदानस्य
वैशिष्ट्यम् ।

(क) तदाह, हारीतः—

आपो ददत्तृषमभिजयत्यात्मानं च निष्क्रीणाति ।

अन्नदानादसूनिष्क्रीणाति अन्नवानन्नादोज्ज्वपतिश्च भवति ॥

(ख) विष्णुः—

मधुघृततैलदानेनारोग्यपौषधप्रदाने च ।

लवणादानेन लावण्यं धान्यप्रदानेन तुष्टिः ।

सस्यदानेन च तथा इन्धनदानेन दीप्ताग्निर्भवति सङ्ग्रामे
सञ्जयमाप्नोति ॥

ये सात, पृथ्वी को धारण किये हैं । (छ) पाराशर का कहना है कि सत्य युग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलियुग में दान मुख्य है । इति दान माहात्म्य ।

सब दानों में अन्न जल आदि दान की विशेषता ।

(क) उसे हारीत कहते हैं कि—जलदाता प्यास को जीतता है मानो आत्मा को ही देता है, अन्नदाता मानो प्राणों को ही देता है और वह अन्न का स्वामी होता है । (ख) विष्णु-शहद, घी, तेल और औषध के दान से आरोग्य, नमक के दान से सौन्दर्य, यव आदि धान्य के दान से तुष्टि, धान तथा लकड़ी के दान से

(ग) मनुः—

वारिदस्तृप्तिमाप्नोति सुखमन्नय्यमन्नदः ।

तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्चक्षुरुत्तमम् ॥

(घ) विष्णुधर्मोत्तरे—

त्रीद्वीणां सस्यजातानां दानात्स्वर्गमवाप्नुयात् ।

यवप्रदानेन नरः शक्रलोके महीयते ॥

तथा गोधूमदानेन वसूनां लोकमाप्नुयात् ।

प्रियो भवति लोकस्य प्रियङ्गुं यः प्रयच्छति ॥

ददाति यस्तु श्यामाकं प्रीताः स्युस्तस्य देवताः ।

सुद्भदः शक्रलोकं तु यमलोकं तु माषदः ॥

यथेष्टलोकमाप्नोति तिलदानान्न संशयः ।

षष्टिकान्नप्रदानेन लोकं नैर्ऋतिकं ल(१)भेत् ॥

स चीनचणकं दत्त्वा लोकं वारुणमाप्नुयात् ।

जठराग्नि तेज होती है, अर्थात् अग्निमांघ नहीं होता एवं युद्ध में विजय पाता है । (ग) मनु-जलदाता तृप्ति, अन्नदाता परम सुख, तिलदाता इच्छानुकूल संतान और दीपदाता उत्तम नेत्र पाता है । (घ) विष्णुधर्मोत्तर-दाता खेत में लगे धान्यों के दान से स्वर्ग और यवदान से इन्द्रलोक में पूजित होता है, वैसे ही गेहूँ के दान से वसुओं का लोक पाता है । जो काकुन देता है वह संसार

(१) लभेदिति परस्मैपदमनुदात्तेत्वलक्षणस्यात्मनेपदस्यानित्यत्वात् । तथा च परिभाषास्वरूपं परिभाषेन्दुशेखरे-‘अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्’ इति । अनित्यत्वे मानं तु चक्षिणो डित्करणमेव । वृत्तभङ्गभयादिति तु नाशङ्क्यम्, ऋषेः शब्ददारिद्र्यसूचकतया न्यूनत्वापादनादिति दिक् ।

वायव्यं च मसूराणि राजमाषाणि धानदम् ॥
 अन्येषां शमीधान्यानां दानात्स्वर्गमवाप्नुयात् ।
 इक्षुमृद्धीकयोर्दानात्परं सौभाग्यमाप्नुयात् ॥
 अन्येषां शूकधान्यानां प्रदाने नियतो नरः ।
 स्वर्गलोकमवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥
 पक्वान्नदानं फलदं नृलोके शुष्कान्नमुक्तं हि तथैव यस्मात् ।
 यजन्ति यज्ञैर्हि ततो द्विजेन्द्रास्तस्माच्च तत्पुण्यतमं प्रदिष्टम् ॥

(६) स्कान्दे—

सर्वेषामेव दानानामन्नदानं परं स्मृतम् ।
 सद्यः प्रीतिकरं दिव्यं बलबुद्धिविवर्द्धनम् ॥

का प्रिय होता है । जो सांवा देता है उस पर देवता प्रसन्न होते हैं । मूंग देने वाला इन्द्रलोक, उड़द देने वाला यमलोक और तिल देने वाला अपने इष्टलोक को पाता है । साठी के दान से निर्ऋतिलोक, चीना के सहित चना अर्थात् चीना (धान्य विशेष) और चना के दान से वरुणलोक, मसूर के दान से वायुलोक और बोड़े के दान से कुबेरलोक को पाता है । फली वाले (मटर आदि) अन्य धान्य के दान से स्वर्ग, ईश्वर और मुनिके के दान से परम-सौभाग्य, बाली से पैदा होने वाले अन्य धान्य के दान से स्वर्ग पाता है, इसमें कोई संशय नहीं है । इस लोक में पकाये हुये अन्न का दान सब फल को देने वाला है, वैसे ही सूखा (कच्चा) अन्न भी सर्व फल-प्रद है । क्यों कि उससे द्विजराज लोग यज्ञ करते हैं, इस लिये पक्वान्न से आमात्र विशेष पुण्यवाला कहा गया है । (६) स्कन्दपुराण-अन्न का दान सब दानों में श्रेष्ठ है, क्यों कि वह शीघ्र प्रसन्न करने वाला सौन्दर्य, बल और बुद्धि

नान्नदानसमं दानं त्रिषु लोकेषु विद्यते ।
 अन्नान्भवन्ति भूतानि म्रियन्ते तदभावतः ॥
 गर्भस्था जायमानाश्च बाला वृद्धाश्च मध्यमाः ।
 आहारमभिकाङ्क्षन्ति देवदानवतापसाः ॥
 क्षुधा हि सर्वरोगाणां व्याधिः श्रेष्ठतमः स्मृतः ।
 तस्यान्नौषधयोगेन प्रतीकारः प्रकीर्तितः ॥
 अन्नदः प्राणदः प्रोक्तः प्राणदश्चापि सर्वदः ।
 तस्मादन्नप्रदानेन सर्वदानफलं लभेत् ॥
 धर्मार्थकाममोक्षाणां देहः परमसाधनम् ।
 स्थितिस्तस्यान्नपानाभ्यामतस्तत्सर्वसाधनम् ॥
 अन्नं प्रजापतिः साक्षादन्नं विष्णुः शिवः स्वयम् ।
 तस्मादन्नसमं दानं न भूतं न भविष्यति ॥

को बढ़ाने वाला है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न न मिलने से मर जाते हैं, इस लिये तीनों लोक में अन्न दान के समान दूसरा दान नहीं है। गर्भ में रहने वाला, माता के उदर से पैदा होने वाला, बालक, तरुण, देवता, दानव और तपस्वी सभी आहार की इच्छा करते हैं। सब रोगों में भूख प्रधान रोग है, उसे अन्न रूपी औषध से दूर करना चाहिये। अन्नदाता प्राणदाता कहा गया है और प्राणदाता सब कुछ देने वाला है, इस लिये अन्न के दान से सब दान का फल मिलता है। धर्म काम और मोक्ष की साधना शरीर से ही होती है, और शरीर की स्थिति अन्न जल से है, इसलिये अन्न जल सब का साधन करने वाला है। अन्न साक्षात् प्रजापति ब्रह्मा-विष्णु-शिव रूप है, इसलिये उस के दान के

(च) भविष्ये—

अन्नदानात्परं दानं न श्रुतं न परीक्षितम् ।
यतो वदन्ति श्रुतयः अन्नं ब्रह्मेति निश्चितम् ॥

(छ) श्रीदेवीभागवते—

अन्नदानात्परं दानं न भूतं न भविष्यति ।
नात्र पात्रविचारोऽस्ति न कालनियमस्तथा ॥

(ज) विष्णुधर्मोत्तरे—

न च दशः परीक्ष्योऽत्र देयमन्नं सदैव तत् ।

(ऋ) भविष्ये—

दारापत्यगृहादीनि वासोऽलङ्कारभूषणम् ।
असहं चानश्नतस्तु सहं भुक्तवतो ध्रुवम् ॥
तस्मादन्नसमं दानं न भूतं न भविष्यति ।
यथा(१)विभवदातव्यं तस्मादन्नं द्विजातये ॥

समान दूसरा दान न हुआ न होगा । (च) भविष्यपुराण—अन्नदान से बढ़कर दूसरा दान न सुना गया और न परीक्षा किया गया है, क्यों कि श्रुतियों ने अन्न को ब्रह्म ही निश्चित किया है । (छ) देवी भागवत—अन्न दान से परे दूसरा दान न हुआ है न होगा, अन्नदान में पात्र और समय का कोई नियम नहीं है । (ज) विष्णुधर्मोत्तर—अन्नदान में देश की परीक्षा नहीं है, उसे सदा देना चाहिये । (ऋ) भविष्यपुराण—भूखे को खी, पुत्र, घर वस्त्र और आभूषणादि अच्छा नहीं लगता, अन्न पाने वालों को ही ये सब बातें अच्छी लगती हैं, इससे अन्नदान से बढ़कर दूसरा दान नहीं है, वित्त के

(१) यथाविभवदातव्यमित्यत्र सुप्सुपेति समासो बोध्यः ।

(ब) नन्दिपुराणे—

अपि कीटपतङ्गानां शुनां चाण्डालयौनिनाम् ।
 दत्त्वाऽन्नं लोकमाप्नोति प्राजापत्यं समासतः ॥
 बान्धवेभ्योऽतिथिभ्योऽन्नं मित्रेभ्यश्च प्रयच्छताम् ।
 दीनान्धकृपणानां च स्वर्गः स्यादन्नदायिनाम् ॥

(ट) व्यासः—

पुष्करिण्यस्तथा वाप्यो देवताऽऽयतनानि च ।
 अन्नदानमथारामाः पूर्त्तमित्यभिधीयते ॥

(ठ) ब्रह्माण्डपुराणे—

पक्वान्नानि करम्भं च मिष्टान्नघृतशर्कराः ।
 कृसरा मधुपर्कं च पयः पायसमेव च ।
 स्निग्धमुष्णां च यो दद्याज्ज्योतिष्टोमफलं लभेत् ॥

(ड) भविष्ये—

ताम्बूलं यो नरो दद्यात्प्रत्यहं नियमान्वितः ।

अनुसार द्विजाति (ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य) को अन्न देना चाहिये । (ब) नन्दिपुराण-दाता कीट, पतंग, कुत्ते और चाण्डाल जातियों को भी अन्न देकर कम से कम ब्रह्मलोक पाता है । बांधव, अतिथि, मित्र, धनहीन, अन्धे और कृपण को अन्न देने से दाता को स्वर्ग होता है । (ट) व्यास पोखरा, बावली, मन्दिर, अन्न-दान और वृक्षवाटिका ये पूर्त कहाते हैं । (ठ) ब्रह्माण्डपुराण-पक्वान्न (पूड़ी आदि) दधि मिला सत्तू, मिठाई, घी, शर्कर, खिचड़ी, मधुपर्क (दधि-मधु-घृत मिला हुआ) दूध और खीर जो मृदु और गरमागरम देता है, वह ज्योतिष्टोम-याग का फल पाता है । (ड)

देवेभ्योऽथ द्विजातिभ्यो महाभाग्यं समप्नुते ॥

(ढ) वह्निपुराणे—

अन्नं मूलं फलं शाकमुदपात्रं तपोधनाः ।

दानं विभवतो दत्त्वा नराः स्वयान्ति धर्मिणः ॥

(गा) विष्णुधर्मोत्तरे—

अन्नदाने न कर्तव्यं पात्रापेक्षणमखपि ।

सदोषेऽपि तु निर्दोषं सगुणेऽपि गुणावहम् ॥

(त) पद्मपुराणे—


अन्नदः पुरुषो लोके प्राणादाता स्मृतो बुधैः ।

चैत्रवैशाखयोर्वारि इन्धनं पौषमाघयोः ।

स्वकाले पुण्यफलदमन्नं सर्वत्र सर्वदा ॥

(थ) हेमाद्रौ, मनुः—

कपिलाकोटिदानस्य यत्पुण्यं हि विधीयते ॥



भविष्यपुराण—जो प्रतिदिन नियम से देवता, द्विजाति (ब्राह्मण-
क्षत्रिय-वैश्य) को पान देता है, वह भाग्यवान् हाता है । (ढ)
वह्निपुराण—हे ऋषियों ! अन्न, कन्द, मूल, फल, शाक और जलपात्र
के धनानुसार दान से धार्मिक-मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं । (ग) वि-
ष्णुधर्मोत्तर-अन्नदान में पात्र का विचार थोड़ा भी न करना
चाहिये, क्योंकि वह दान दोष सहित भी निर्दोष और गुण-युत
भी गुण देने वाला है । (त) पद्मपुराण-विद्वानों ने संसार में अ-
न्नदाता को प्राणादाता कहा है, चैत्र वैशाख में जल और पूस माघ
में लकड़ी का दान अपने मास ही में पुण्य-दायक है, किंतु अन्न-
दान तो सदा और सर्वत्र पुण्य फल देने वाला है । (थ) मनु-करो-

तत्पुण्यफलमाप्नोति पानीयं यः प्रयच्छति ॥

(द) नन्दिपुराणे—

योऽपि कश्चित्पार्त्तय जलपानं प्रयच्छति ।
स नित्यतृप्तो भवति स्वर्गे युगशतं नरः ॥

(ध) बृहत्पाराशरीये—

यो द्विजान्पाययेत्तोयमन्यानपि पिपासुकान् ।
प्रपाश्र्च भावयेद् ग्रीष्मे देवलोकमवाप्नुयात् ॥

(न) महाभारते—

प्रपाश्र्च कार्या दानार्थं नित्यं तु द्विजसत्तम ।
स दुर्गविषमं कृच्छ्रं न कदाचिदवाप्नुते ॥

(प) भविष्योत्तरे—

प्रपा दातुमशक्तेन विशेषाद्धर्ममीप्सुना ।
उद(१)कुम्भं प्रदातव्यं प्रत्यहं तु द्विजातये ॥
उदकुम्भप्रदानेऽपि ह्यशक्तो यः पुमान्भवेत् ।

डों कपिला गाय के दान से जो पुण्य होता है, वह संपूणे फल केवल जलदान करने से ही प्राप्त हो जाता है । (द) नन्दिपुराण— जो कोई प्यासे को जल देता है, वह सैकड़ों युग तक स्वर्ग में नित्य तृप्त रहता है । (ध) बृहत्पाराशर—जो प्यासे ब्राह्मणों तथा अन्य प्यासे प्राणियों को भी जल पिलवाता है, गर्मी के दिनों में पौशाला बनवाता है, उसे देवलोक मिलता है । (न) महाभारत— हे द्विज ! प्रतिदिन जलदानके लिये पौशाला बनवाना चाहिये, इस से उसे कभी कोई कठिनाई या कष्ट नहीं होता । (प) भविष्य

(१) अत्र लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वादिति स्त्रीबत्वमार्थं वा बोध्यम् ।

तेनाश्वत्थतरोर्मूलं सेच्यं तत्फलकाङ्किणा ॥

इत्यन्नोदकादिदानवैशिष्ट्यम् ॥

अथ दानानां षडधिष्ठानानि ।

(क) हैमाद्रौ, देवलः—

धर्ममर्थं च कामं च व्रीडाहर्षभयानि च ।

अधिष्ठानानि दानानां षडेतानि प्रचक्षते ॥

तत्र धर्मदानं च—

पात्रेभ्यो दीयते नित्यमनपेक्ष्य प्रयोजनम् ।

केवलं त्यागबुद्ध्या यद्धर्मदानं तदुच्यते ॥

पुराण—पौशाला देने में असमर्थ पुरुष को उस धर्म की इच्छा से प्रति दिन जल से भरे हुये घड़े ब्राह्मण को देना चाहिये । जो पुरुष जलकुंभ देने में भी असमर्थ हो तो उसको घटदान के फल की इच्छा से पीपल वृक्ष सीचना चाहिये । इति अन्नोदकादि दान वैशिष्ट्यम् ।

दान के छ स्थान ।

(क) देवल-धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय ये छ दान के स्थान हैं । बिना किसी अर्थ के केवल त्यागबुद्धि से सुपात्र को जो दान दिया जाय उसे 'धर्मदान' कहते हैं । इसी तरह किसी प्रयोजन से जो दिया जाय उसे 'अर्थदान', स्त्री आदिके प्रसंगसे जो दिया जाय उसे 'कामदान', सभा में याचक से मांगने पर लजा कर जो दिया जाय उसे 'व्रीडादान', पुत्र के जन्म आदि प्रिय कार्य को सुनकर जो दिया जाय उसे 'हर्षदान' और डरकर दुःख देने

अवशिष्टानि पञ्च अर्थकामव्रीडाहर्षभयानि स्पष्टानि ।
इति दानाधिष्ठानानि ॥

अथ दानस्वरूपम् ।

(क) हेमाद्रौ, देवलः—

ध्रुवमाजस्रिकं काम्यं नैमित्तिकमिति क्रमात् ।
वैदिको दानमार्गोऽयं चतुर्धा वर्ण्यते बुधैः ॥
प्रपाञ्चरामतडागादि सर्वकामफलं ध्रुवम् ।
तदाजस्रिकमित्याहुर्दीयते यद्दिने दिने ॥
अपत्यविजयैश्वर्यस्त्रीवालार्थं यदिष्यते ।
इच्छासंस्थं तु तद्दानं काम्यमित्यभिधीयते ॥
कालापेक्षं क्रियापेक्षमर्थापेक्षमिति स्मृतम् ।
त्रिधा नैमित्तिकं प्राक्तं सहोमं होमवर्जितम् ॥

वाले को जो दिया जाय उसे 'भयदान' कहते हैं । इति दानाधिष्ठान ।

दान का स्वरूप ।

(क) देवल—विद्वानोंने ध्रुव, आजस्रिक, काम्य और नैमित्तिक ये चार प्रकार के वैदिक-दान कहे हैं । पौशाला, वृक्षवाटिका और तालाव आदि कार्य 'ध्रुव' कहलाता है, जो प्रतिदिन दिया जाय उसे 'आजस्रिक' कहते हैं । पुत्र, विजय, ऐश्वर्य, और स्त्री आदि के लिये जो इच्छानुसार दिया जाय उसे 'काम्य' कहते हैं । काल, क्रिया और द्रव्य की अपेक्षा जिसमें हो उसे 'नैमित्तिक' दान कहते हैं, इस नैमित्तिक-दान में होम करना न करना दोनों पक्ष हैं ।

(ख) मनुः—

येन येन तु भावेन यद्यद्दानं प्रयच्छति ।
तत्तत्तेनैव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः ॥

(ग) कूर्मे—

यदाश्वरप्रीणनार्थं ब्रह्मवित्सु प्रदीयते ।
चेतसा भक्तियुक्तेन दानं तद् विमलं शिवम् ॥

(घ) विष्णुधर्मोत्तरे—

तामसानां फलं भुङ्क्ते तिर्यक्तवे मानवः सदा ।
अतोऽन्यथा तु मानुष्ये राजसानां फलं भवेत् ॥
सात्विकानां फलं भुङ्क्ते देवत्वे नात्र संशयः ।
कृतानि विधिहीनानि वञ्चनार्थं तु तामसम् ॥
क्रोधलोभाभिभूतेन राजसं परिकीर्तितम् ।

(ख)मनु—जिस जिस स्वर्ग आदि की कामना से जो जो दान दिये जाते हैं, वे उसी कामना से युक्त होकर उस दान के फल के द्वारा वह दाता दूसरे जन्म में पूजित होकर पाता है। (ग) कूर्मपुराण—भक्ति-युक्त चित्त से ईश्वर की प्रसन्नता के लिये जो दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, वह कल्याण करने वाला 'विमलदान' है। (घ) विष्णुधर्मोत्तर—तामसदान का फल पक्षी आदि के योनि में, राजसदान का फल मनुष्ययोनि में और सात्विकदान का फल देवयोनि में प्राप्त होकर भोगता है। ठगने के लिये विधि से हीन किया गया 'तामस', क्रोध और लोभ से किया गया राजस और